

## उत्तराखण्ड की लकड़ी महिलाओं के लिए उत्तम इंधन

By : INVC Team Published On : 9 Dec, 2015 11:08 PM IST



आई एन वी सी न्यूज़ नई दिल्ली, बुधवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन में मुख्यमंत्री हरीश रावत की उपस्थिति में उत्तराखण्ड सरकार एवं इंटरनेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन(आई.ओ.सी) यू.ए.ई एवं काबूल और नूवाम लि. हांगकांग के बीच एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखण्ड सरकार की ओर से सचिव शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग डी.एस.गब्र्याल और आई.ओ.सी के चेयरमैन फैजल रहीम ने एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर किए। इंटरनेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा उत्तराखण्ड में 500 मिलियन डॉलर का निवेश किया जायेगा। साथ ही एल.पी.जी गैस प्लांट, पेट्रोलियम, सड़क, टनल व एलीवेटेड रोड, ऊर्जा आदि की योजनाओं में भी निवेश व तकनीक सहयोग प्रदान किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाएं ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं। आई.ओ.सी के निवेश से पहाड़ी क्षेत्रों में एल.पी.जी. के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा साथ ही इससे पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं का काफी सुविधाएं भी मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि आई.ओ.सी के इस निवेश से राज्य में अवस्थापना सुविधाओं का विकास होगा। ग्राम पंचायतों में छोटे सोलर एवं हाइड्रो प्रोजेक्टों के लिए वित्तीय एवं तकनीक सहायता ली जायेगी। उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा एलीवेटेड रोड, टनल तथा शहरों में रिग रोड बनाने की तकनीक में भी आईओसी सहयोग प्रदान करेंगी। इसके साथ ही 6 बड़े शहरों में सीएनजी, एल.पी.जी प्लांट एवं पेट्रोलियम संयंत्रों की स्थापना की जायेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार रणजीत रावत, मुख्य प्रधान सचिव(मुख्यमंत्री) राकेश शर्मा, सचिव डी.एस.गब्र्याल, अपर स्थानिक आयुक्त एस.डी.शर्मा आदि उपस्थित थे।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/उत्तराखण्ड-की-लकड़ी-महिला/>